

बड़े ब्रांड के 68 टिन नकली घी जब्त, फर्म मालिक गिरफ्तार / बड़े ब्रांड के 68 टिन नकली घी जब्त, फर्म मालिक गिरफ्तार

Jaipur News - चुनाव की गर्माहट के बीच बाजार में दस लाख रुपए का नकली घी खपाने की तैयारी करती फर्म पर चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई की...

Nov 17, 2018, 05:30 AM IST



चुनाव की गर्माहट के बीच बाजार में दस लाख रुपए का नकली घी खपाने की तैयारी करती फर्म पर चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई की है। फर्म ने विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के नाम से 2500 किलोग्राम नकली घी बेचने की तैयारी कर ली थी। लेकिन शुक्रवार को इलेक्शन टीम को इसकी भनक मिली। उन्होंने चिकित्सा विभाग को इसकी सूचना दी और इसके बाद जयसिंह खोरपुरा में कार्रवाई की गई। माना जा रहा है कि शहर में नकली घी बेचे जाने की सबसे बड़ी कार्रवाई है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि शहर में ही करीब एक करोड़ का नकली घी सप्लाई किया जा चुका है। मौके पर ही 38 टिन प्रोटो ब्रांड वनस्पति, 38 टिन विभोर ब्रांड रिफाईंड सोयाबीन तेल, बुश कंपनी का पांच लीटर बटर फ्लेवर, पैकिंग मशीन, रैपर, कार्टन, खाली टिन मिले हैं।

करीब एक करोड़ का नकली घी पहले ही सप्लाई किया जा चुका है

मामले के अनुसार टीम ने जयसिंह खोर पुरा में बाबा एंटरप्राइजेज पर छापा। यहां सैंकड़ों टिन वनस्पति घी, सोयाबीन ऑयल और बटर फ्लेवर मिला। फर्म इन सभी से नकली घी बनाकर सरस, कृष्णा, लोटस और महान कंपनियों के घी बना कर बाजार में बेच रही थी और तैयारी में थी। इस फर्म ने श्री श्याम ट्रेडिंग कंपनी, चांदपोल बाजार के नाम से फर्जी फर्म बना रखी थी। इसके जीएसटी नंबर भी फर्जी पाए गए। सूचना पर इन कंपनियों के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल मामले में फर्म के मालिक विष्णु गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएमएचओ टीम ने सामान जब्त कर सैंपल ले लिए हैं और कंपनियों ने ब्रांड डुप्लीकेट कर माल बेचने का मामला दर्ज कराया है।

Source: <https://www.bhaskar.com/news/big-brand-seizes-68-tin-fake-ghee-arrested-firm-owner-053010-3211592.html>